

निकुंज में विराजे

निकुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे ॥
*हो श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे ।
निकुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे ॥

सिर मोर, मुकुट अधिराजे ।
*हो कर कमलों में, कंगणा मनी है ।
कानो में, कुण्डलिया सोहे ।
*हो दो नैनन में, कजरा बसत है ।
श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे ॥*
निकुंज में विराजे,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

मुरली वाले की, महफ़िल सजी है ।
*हो बँसी वाले की महफ़िल सजी है ।
*हो कमली वाले की, महफ़िल सजी है ।
निकुंज में विराजे,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

उनकी रहमत का, झूमर सजा है ।
हमको महसूस, ये हो रहा है ।
*हो तेरी महफ़िल में, करुणा भरी है ।
निकुंज में विराजे,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

मेरी झोली, भी सरकार भर दो ॥
*हो आपने सब की, झोली भरी है ॥
निकुंज में विराजे,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F
राधे राधे,,, श्याम मिलादे,,, ॥॥॥ धुन
अपलोडर- अनिलरामूर्तीभोपाल

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/21495/title/nikunj-mein-biraje>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |